

SECTION—I (ENGLISH)

Total Marks: 42.5

1. Write a paragraph in about 300 words on *any one* of the following: (10)
- A thing of Beauty is a Joy Forever
 - Honesty is the Best Policy
 - National Integration
 - Environmental Pollution

2. Read the following passage carefully and make a precis (in about one-third of the original passage). Suggest a suitable title to it. (4+1=5)

We take water so much for granted, but we cannot live without it. Almost three-fourths of the surface of the earth is covered with water. You may ask, so why worry about water?

But have you realised that 97 per cent of the water on earth is in the ocean? This water cannot be directly used to meet any of our daily needs. Almost two per cent of the water is stored in ice caps and glaciers and again cannot be used, unless melted. That leaves us with just one per cent to meet all the needs of all living beings. This is what we call freshwater, and this is found in ponds, lakes, rivers, and some of this is underground. Can you think of all the uses of water in our daily lives? It is this one per cent that meets all these needs.

It is because of this scarcity that we have to be really careful about how the water is used. World over, there is a growing concern about the depleting water sources. The demand for water is the effect of the increased population and industrial growth around the world. In cities like Chennai there is a price on drinking water.

Then there is the reality of the skewed distribution of water. We know that there are some localities in our cities that enjoy water all round the clock, while others are deprived for days. The insensitivity of some is glaring when they use this scarce resource to hose their car or water their manicured gardens, and all the while, people go thirsty.

- ⊙ There is also the growing pollution of water sources all over the world. This pollution is caused by water released from several industries or sometimes even an accident or disaster in water bodies, which causes the release of pollutants in the water. There are several areas in the world where water has become unfit for drinking because of this.

So next time you keep the tap running, while you brush your teeth or wash your face, think about it. By turning off the tap, you may be helping someone, somewhere, to get a bucketful of water. (362 Words)

3. Read the following passage carefully and answer the questions that follow:

Did you know that English is not the original language of England? It was introduced to the island only in the mid-fifth century by three Germanic tribes. Prior to this Celtic was the spoken dialect. This language survives even today in the Gaelic languages of Scotland and Ireland and in Welsh. When the Germanic tribes entered the British Isles, they pushed the locals into Wales, Cornwall and Scotland. The invaders were Jutes, Saxons, and Angles. The Angles were named from Engle, their land of origin. Their language was called Englisc from which the world English is derived. They spoke a mutually intelligent dialect, which slowly

evolved into English, or rather, Old English. At this time, the Vikings from Scandinavia too influenced English.

The Roman invasion in the 19th Century had introduced a number of Latin words. The next influence came from the Norman Conquest in 1066 A.D. The Normans were of Germanic stock. Anglo-Norman was a French dialect that had Germanic influences in addition to Latin roots.

With The Renaissance in the 14th century, a number of Greek and Latin words entered into the English vocabulary. Gradually, Old English became obsolete. There has been a change in the written script too. Earlier English was written in an alphabet called Runic. This was replaced with the present Latin alphabet which was brought from Ireland by the Christian missionaries. Modern English language began in the 6th century and like all living languages is still growing. French and Latin had always been regarded as the fashionable dialect of literature and the elite class. But English has overtaken them all.

English is quite flexible and extends hospitality to all languages. This is the reason why foreign languages have greatly influenced the English language.

- i) What was the original language of England?
- ii) What happened to the original inhabitants of England?
- iii) What happened to the Runic alphabet?
- iv) What is the contribution of Christian missionaries to English?
- v) What are the languages that have helped English grow? (5x1=5)

4. You are Vansh/ Abha from Kalka. Write a report in about 120 words on any one of the following:
A) National Voter's Day Celebrated in your College.
B) A Market Place on Fire. (5)

5. You are Yamni/ Rajat of 337, Modern Enclave, Varanasi. Write a letter to the Editor, *The Indian Express*, New Delhi expressing your views on the problem of rash driving. (5)

6. Translate the following paragraph into English:

जीवन में सफलता प्राप्त करने के चार नियम हैं- परिश्रम, समय का मूल्य समझना, सच्चाई और प्रसन्न रहना। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य परिश्रम से जी चुराता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ईश्वर ने मनुष्य को अंग इसलिए दिए हैं कि वह उन से अच्छी तरह काम लें। जो मनुष्य अपने अंगों से काम नहीं लेता वह भगवान की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करता और वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। परिश्रम से सुख प्राप्त हो सकता है। यदि आप सुख और आराम चाहते हो तो परिश्रम से कभी भी जी न चुराओ। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। समय का मूल्य समझिये। खुश रहिये, सफलता आपके कदम चूमेगी। (2.5)

7. Edit the following paragraph:

Himachal Pradesh is land of gods Goddesses. It is peaceful state known by its scenic beauty. Tourists from all over world come to Himachal Pradesh to enjoy the natural beauty of

it's lush green forests. Rivulets and waterfalls adds to the beauty of this state and enchant everybody heart. There are many places of historical importance here. The entire state is dotted by temples and places of worship. Tourists, particularly from the neighbouring states, visit this state quiet often to refresh themselves and to get away from the madding crowds. (2.5)

8. Change the Narration:

- i) "Vibhati, where were you going yesterday?" said the teacher.
- ii) Ravi said to Anchal, "Let me play chess, please."
- iii) The science teacher asked his students, "Do you think Chandaryan-2 will be able to make contact with Vikram?" (3x1/2=1.5)

9. Do as Directed:

- i) Uneasy lies the head that.....(complete the proverb)
- ii) He killed a tiger with a gun. (Change the voice)
- iii) She is too beautiful. (Remove 'Too')
- iv) 'One who collects coins' is a..... (Supply one word substitution)
- v) She is an illiterate woman. She hasknowledge of science. (Use correct determiner)
- vi) Conossure (Correct the spelling)
- vii) The girls (Sing) a song for an hour when the teacher came. (Use correct form of the verb)
- viii) 'Go' (Supply a Synonym)
- ix) 'Help' (Supply an Antonym)
- x) He doesn't love books. (Rewrite the sentence using a Question Tag)
- xi) His boss reprimanded him saying, "How..... you stand before me?" (Use suitable Modal)
- xii) The train passed.....the tunnel and disappeared. (Use suitable preposition) (12x1/2=6)

प्रश्न 10. निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबन्ध लिखिए: - (10)

- (1) राजनीति में अस्थायी सत्त्व
- (2) युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों की प्रवृत्ति: कारण एवं निदान
- (3) ग्रामीण समस्याएं और उनका समाधान
- (4) पुलिस और सामाजिक सम्बन्ध

प्रश्न 11. निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए: - (5)

दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलटा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और आनन्द दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है।

'अथवा'

जहां धन की कमी-वेशी के आधार पर असमानता है, ईर्ष्या, जोर-जबरदस्ती, बेईमानी, घूठ, मिथ्या अभियोग-आरोप, चेश्यावृत्ति, व्याभिचार और सारी दुनिया की घुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। जहां धन का आधिक्य नहीं, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में हैं, वहां जलन क्यों हो और जड़ क्यों हो और सतीत्व-विक्रय क्यों हो और व्याभिचार क्यों हो? झूठे मुकद्दमें क्यों चले और चोरी-डाके की घारदातें क्यों हो? ये सारी घुराइयां तो वीरत की देन हैं, पैसे के प्रसाद हैं, महाजनी सभ्यता से उनकी सृष्टि की है।

प्रश्न 12. निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए: - (5)

भारत साता
ग्राम वासिनी
स्वेतों में फैला है श्यामल
धूल भरा मैला सा आंचल
गंगा-यमुना में आँसू-जल
मिट्टी की प्रतिमा
उदासिनी।

देन्य जड़ित अपलक नत चितवन,
अधरों में चिर नीरव रोदन,
युग-युग के तम से विषण्ण मन,
वह अपने घर में
प्रवासिनी।

'अथवा'

फूली सरसों ने दिया रंग,
मधु लेकर आ पहुंचा अनंग,
वधु-वसुधा पुलकित अंग-अंग,

हे गीर वेत्र में किन्तु कन्ता,
 पीरों का कौसा छे यमन्त?
 भर रही फोकिला उधर तान,
 मारु याजे पर उधर गान,
 हे रंग और रण का विधान,
 मिलने आवे है आदि अंत,
 पीरों का कौसा छे यमन्त?

प्रश्न 13. एक समाचार पत्र के सम्पादक को पत्र लिखकर नगर में फैली गुण्डागर्दी की रोकथाम के लिए अधिकारी वर्ग तथा शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कीजिए।
 (निर्देश: - पत्र लेखन में केवल काल्पनिक नाम व पता लिखें) (5)

प्रश्न 14. निम्नलिखित शब्दों की सन्धि कीजिए: - (2.5)

- (1) पो + अन
- (2) वि + आप्त
- (3) वि + ऊह
- (4) नि + रोग
- (5) भू + ऊर्ध्व

प्रश्न 15. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें: - (2.5)

- (1) राम को एक चय का पैकेट चाहिए
- (2) शब्द केवल संकेत मात्र है।
- (3) मंत्री द्वारा भगाई गई औरतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त।
- (4) कृपा मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें।
- (5) महापुरुषों का जीवन खन्डों में बीतता है।

प्रश्न 16. निम्नलिखित विराम चिन्हों को पहचान कर इनके नाम लिखिए: - (2.5)

- (1) (.)
- (2) (:)
- (3) (!)
- (4) (" ")
- (5) (-)

प्रश्न 17. निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए: - (2.5)

- (1) विमारि
- (2) चिन्ह
- (3) घातसत्य
- (4) स्वोत
- (5) ज्योतसना

प्रश्न 18. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखें:-

(2.5)

- (1) उम्र
- (2) हंस
- (3) तारा
- (4) कामदेव
- (5) भालू

प्रश्न 19. निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनायें:-

(2.5)

- (1) कर्ता
- (2) सगाट
- (3) धक्ता
- (4) विद्वान
- (5) कवि

प्रश्न 20. निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से दोबेला (असंगत) शब्द को छांट कर लिखिए:-

(2.5)

- | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| (1) | (क) कय | (ख) विकय | (ग) कीमत | (घ) व्यय |
| (2) | (क) प्रतिक्रिया | (ख) प्रतिदिन | (ग) प्रत्युत्तर | (घ) प्रतिशोध |
| (3) | (क) पार्ष्विक | (ख) साप्ताहिक | (ग) वार्षिक | (घ) प्रतिदिन |
| (4) | (क) विभुज | (ख) विभुवन | (ग) त्रिशंकु | (घ) त्रिलोकी |
| (5) | (क) भाग | (ख) अंश | (ग) अंश | (घ) अक्षयज्ञ |